

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 01296/2023

श्रीमती विमला मांझू

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.04.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थागण की ओर से :

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भौतिकी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेंदवास, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 73 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी वर्टिगो के कई एपिसोड से पीड़ित है जिससे अपीलार्थी को नियमित और लंबे उपचार की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थागण को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत

किया था लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन में कोई बल नहीं होने के कारण अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निरस्त आदेश दिनांक 12.04.2023 (अनुलग्नक-2) द्वारा किया गया तथा अपीलार्थी को तत्काल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के आदेश दिए। अपीलार्थी को दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक-3) द्वारा कार्यमुक्त किया गया। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य अभ्यावेदन निरस्त आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) एवं स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2023 (अनुलग्नक-2) तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक-3) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में व्याख्याता (भौतिकी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता (भौतिकी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be

transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

- 5 अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 73 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

- 7 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य